



न्यू जर्सी मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन

कृपया स्थानीय का उपयोग कर स्पष्ट लिखें। सारी जानकारी देना ज़रूरी है जब तक कि अन्यथा वैकल्पिक के तौर पर चिन्हांकित न हो।

<input type="checkbox"/> लागू होने वाले सभी बॉक्सों पर निशान लगाएँ: <input type="checkbox"/> नया पंजीकरण <input type="checkbox"/> पते में बदलाव				<input type="checkbox"/> नाम परिवर्तन <input type="checkbox"/> हस्ताक्षर अपडेट करना				<input type="checkbox"/> राजनीतिक पार्टी संबद्धता <input type="checkbox"/> डाक द्वारा मतदान				FOR OFFICIAL USE ONLY	
2 क्या आप एक अमेरिकी नागरिक हैं? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं (यदि नहीं, तो यह फॉर्म पूरा न करें)				3 क्या आप कम से कम 17 वर्ष की आयु के हैं? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं (यदि नहीं, तो यह फॉर्म पूरा न करें)								Clerk	
4 उप नाम		पहला नाम			मध्य नाम या आद्याक्षर			प्रत्यय (जूनियर, सीनियर, III)			Registration #		
5 जन्म तिथि (महीना/दिन/साल)				/ /			6 लिंग (वैकल्पिक) <input type="checkbox"/> महिला <input type="checkbox"/> पुरुष				Office Time Stamp		
7 न्यू जर्सी ड्राइवर लाइसेंस संख्या या MVC गैर-ड्राइवर आईडी संख्या				यदि आपके पास न्यू जर्सी का ड्राइवर लाइसेंस या MVC गैर-ड्राइवर आईडी नहीं है, तो अपने सोशल सिक्योरिटी नम्बर के आधिरी 4 अंक बताएं _____									
<input type="checkbox"/> "मैं शपथ लेता/लेती हूँ या पुष्टि करता/करती हूँ कि मेरे पास न्यू जर्सी ड्राइवर लाइसेंस, MVC गैर-ड्राइवर आईडी, या एक सोशल सिक्योरिटी नम्बर नहीं है।"													
8 घर का पता (पीजो बॉक्स का उपयोग न करें)				अपार्टमेंट		नगरपालिका (शहर/दाउन)		काउंटी		राज्य		ज़िप कोड	
9 डाक पता (यदि घर के पते से अलग हो)				अपार्टमेंट		नगरपालिका (शहर/दाउन)		काउंटी		राज्य		ज़िप कोड	
10 उम्र घर का पता जिसे मतदान के लिए पंजीकरण करते समय इस्तेमाल किया था (पीजो बॉक्स का उपयोग न करें)				अपार्टमेंट		नगरपालिका (शहर/दाउन)		काउंटी		राज्य		मुनि कोड #	
11 यदि नाम बदल रहे हैं तो पुराना नाम				12 घर का फ़ोन नंबर (वैकल्पिक) _____								Party	
				ईमेल पता (वैकल्पिक) _____								Ward	
13 क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी से संबद्धता की घोषणा करना चाहते/ती हैं? <input type="checkbox"/> हाँ, पार्टी का नाम _____ है। (वैकल्पिक)				<input type="checkbox"/> नहीं, मैं किसी भी राजनीतिक दल के साथ संबंधित नहीं होना चाहता/ती हूँ।								District	
14 भविष्य के सभी चुनावों के लिए डाक द्वारा मतपत्र का अनुरोध (वैकल्पिक)													
<input type="checkbox"/> मैं भविष्य के सभी चुनावों के लिए डाक द्वारा मतपत्र प्राप्त करना चाहता/ती हूँ जब तक कि मैं काउंटी क्लर्क के ऑफिस को लिखित में अन्यथा अनुरोध न करूँ।													
<input type="checkbox"/> यदि ऊपर दिये भेरे डाक पते से अलग हैं तो मेरा मतपत्र इस पते पर भेजें।													
डाक का पता, यदि ऊपर दिये से अलग हो				अपार्टमेंट		नगरपालिका (शहर/दाउन)		काउंटी		राज्य		ज़िप कोड	
घोषणा - मैं शपथ लेता/ती हूँ या पुष्टि करता/ती हूँ कि:													
<ul style="list-style-type: none"> ● मैं एक अमेरिकी नागरिक हूँ ● मैं ऊपर दिये घर के पते पर रहता/रहती हूँ ● मैं कम से कम 17 साल का/की हूँ, और समझता/ती हूँ कि मैं 18 वर्ष की आयु तक पहुँचने तक मतदान नहीं कर सकता/ती हूँ। 													
<ul style="list-style-type: none"> ● मैंने अगले चुनाव से कम से कम 30 दिन पहले तक इस राज्य और काउंटी में निवास किया हांगा ● मैं इस या किसी अन्य राज्य या संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनों के तहत किसी भी आपाराधिक अपराध के दोषी के रूप में अपराध की सजा नहीं काट रहा/रही हूँ। 													
पंजीकरण करवाने वाले/वाली के हस्ताक्षर: नीचे दी लाइनों पर हस्ताक्षर करें या निशान लगाएं और तारीख डालें													
यदि आवेदक इस फॉर्म को पूरा करने में असमर्थ है, तो उस व्यक्ति का नाम और पता लिखें जिसने इस फॉर्म को पूरा किया है।													
नाम _____ तारीख (महीना/दिन/साल) _____ / _____ / _____ पता _____													
X _____ तारीख _____ / _____ / _____ (महीना/दिन/साल)													

अनुभागों 7, 8, 13 और 14 के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

- 7) वे पंजीकरण करवाने वाले जो इस फॉर्म को डाक से सबमिट करवा रहे हैं और मतदान के लिए पहली बार पंजीकरण करवा रहे हैं: यदि आप अनुभाग 7 द्वारा आवश्यक किसी भी जानकारी की आपूर्ति नहीं करते हैं, या आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी को सत्यापित नहीं किया जा सकता है, तो आपको मतदान स्थल पर पहचान प्रदान करने से बचने के लिए एक वर्तमान और वैध फॉर्म आईडी की चोरी, या अपने नाम और वर्तमान पते वाला कोई दस्तावेज़ प्रदान करने के लिए कहा जाएगा।
 - 8) यदि आप बेवर हैं, तो आप कोई सम्पर्क करने का कोई तरीका या ऐसी जगह बताकर जहां आप अपना ज्यादातर समय व्यतीत करते हैं, अनुभाग 8 को परा कर सकते हैं।
 - 13) आप किसी राजनीतिक पार्टी से संबद्धता की घोषणा कर सकते हैं या आप असंबंधित होने की घोषणा कर सकते हैं, चाहे आपने पहले किसी राजनीतिक पार्टी से संबद्धता को बदलना चाहता/ती है या एक असंबद्ध मतदाता पर बदलाव करना चाहता/ती है, तो आपके प्राथमिक चुनाव में मतदान करने के लिए प्राथमिक चुनाव से कम से कम 55 दिन पहले इस फॉर्म को दायर करना ज़रूरी है। अनुभाग 13 को पूरा करना वैकल्पिक है और आपके मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन को स्वीकार करने को प्रभावित नहीं करेगा।
 - 14) यदि आप भविष्य के सभी चुनावों के लिए डाक द्वारा मतपत्र प्राप्त करना चाहते/ती हैं, तो अनुभाग 14 में उचित बॉक्स पर निशान लगाएं। आप भविष्य के सभी चुनावों के लिए डाक द्वारा मतपत्र प्राप्त करना जारी रखें जब तक कि आप काउंटी क्लर्क के ऑफिस को लिखित में अन्यथा अनुरोध न कर दें।
- और जानकारी की आवश्यकता है?** यदि आप इनके बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिये गये बॉक्सों पर निशान लगाएं:
- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> डाक द्वारा मतदान | <input type="checkbox"/> मतदान स्थल तक अभिगम्यता | <input type="checkbox"/> देखने संबंधी विकार समेत, किसी विकलांगता के साथ मतदान कर रहे हैं |
| <input type="checkbox"/> मतदान कर्मी बनना | <input type="checkbox"/> इस वैकल्पिक भाषा में चुनाव सामग्री की उपलब्धता: | |

न्यू जर्सी मतदाता पंजीकरण जानकारी

आप मतदान के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं, यदि:

- आप संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं।
- आपकी आयु कम से कम 17 वर्ष है।*
- आप चुनाव से कम से कम 30 दिन पहले तक इस राज्य और काउंटी के निवासी होंगे।
- मैं इस या किसी अन्य राज्य या संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनों के तहत किसी भी आपराधिक अपराध के दोषी के रूप में अपराध की सजा नहीं काट रहा/रही हूं।

*आप मतदान के लिए पंजीकरण कर सकते हैं यदि आप कम से कम 17 साल के/की हैं, लेकिन 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक मतदान नहीं कर सकते/ती।

पंजीकरण की डेडलाइन (अंतिम तिथि): किसी चुनाव से 21 दिन पहले

आपकी काउंटी का पंजीकरण आयुक्त आपको सूचित करेगा/गी कि क्या आपका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है।
यदि इसे स्वीकार नहीं किया गया है, तो आपको सूचित किया जाएगा कि इसे कैसे पूरा करें और/या आवेदन को कैसे ठीक करें।

सवाल हैं? Elections.NJ.gov पर जाएं या टोल-फ्री नम्बर 1-877-NJVOTER (1-877-658-6837) पर कॉल करें

1 मोड़ें



NO POSTAGE
NECESSARY
IF MAILED
IN THE
UNITED STATES

BUSINESS REPLY MAIL
FIRST-CLASS MAIL PERMIT NO. 206 TRENTON, NJ





POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE

DIVISION OF ELECTIONS
PO BOX 304
TRENTON NJ 08625-9983



2 मोड़ें

महत्वपूर्ण: 100% पर प्रिंट करें - फॉर्म का साइज छोटा ना करें। सही तरीके से मेल करने के लिए दिखाए गए अनुसार फौल्ड करें।



दिखाए गये अनुसार
दोनों पन्नों को
इकट्ठा रखें

1 ऊपरी किनारे को मोड़ें

2 निचले किनारे को मोड़ें

3 ऊपरी हिस्से को बंद करने
के लिए टेप लगाएँ